

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन के लिए 12 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों का ऐलान किया गया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (15 सितम्बर, 2020) – कल, यह ऐलान किया गया था कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को, 2021 के अंत तक चार फैसिलिटीज में, 12 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए फंडिंग मिलेगी। ये चार्जिंग स्टेशन, पील क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप (Peel Climate Change Partnership) और नैचुरल रिसोर्सिज कॅनेडा (Natural Resources Canada) के ज़ीरो एमिशन व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम (Zero Emission Vehicle Infrastructure Program) में, सिटी की भागीदारी द्वारा संभव हुए थे।

2019 में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, ग्रीन सिटी (Green City) बनने की प्रतिबद्धता के साथ, सिटी में पैदा होने वाली ग्रीनहाउस गैस (जी.एच.जी.) निकासियों को, 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने के लक्ष्य के साथ, जलवायु संबंधी एमरजेंसी घोषित करने के लिए सर्वसम्मति से वोट दिया था। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, निवासियों को पुनः सोचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि वे जी.एच.जी. (GHG) को कम करके, किस तरह से इधर-उधर जाने और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी अधिक विकल्पों का प्रचार कर सकते हैं।

नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, निम्नलिखित स्थानों पर लगाए जाएंगे:

- कैसी कैम्पबेल रेक्रिएशन सेंटर (Cassie Campbell Recreation Centre) – 2
- लोफर्स लेक रेक्रिएशन सेंटर (Loafers Lake Recreation Centre) – 2
- चिंग्कूजी वेलनेस सेंटर (Chinguacousy Wellness Centre) – 4
- रिवरस्टोन कम्युनिटी सेंटर (Riverstone Community Centre) – 4

सिटी के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

संक्षिप्त तथ्य

- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, अलग-अलग म्युनिसिपल पार्किंग लॉट्स और पूरी सिटी में सिटी की फैसिलिटीज में, 53 मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैं ताकि ब्रैम्पटन में निवासियों और कारोबारियों के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सके।
- ब्रैम्पटन के इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन, जनता के लिए प्रयोग हेतु मुफ्त हैं। भुगतान वाले पार्किंग लॉट्स में, साधारण पार्किंग फीस लागू होती है।

- सिटी काउंसिल ने जून 2019 में, ब्रैम्पटन में जी.एच.जी. को, 2050 तक 80 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य तय किया था। शेरिडन कॉलेज (Sheridan College) के साथ साझेदारी में, कम्युनिटी एनर्जी एंड एमिशनस प्लान (सी.ई.ई.आर.पी.) (Community Energy and Emissions Plan) (CEERP) के विकास सहित, सिटी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ कदम उठा रही है।
- पूरा होने पर, सी.ई.ई.आर.पी. (CEERP) का उद्देश्य, म्युनिसिपल्टी, लोकल यूटिलिटीज और सामुदायिक स्टेकहोल्डर्स के प्रयासों को मिलाना और एक रोडमैप तैयार करना है, जो ऊर्जा कुशलता को बढ़ाएगा, ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करेगा, ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, आर्थिक लाभ पैदा करेगा और जलवायु संबंधी बदलाव में लचीलापन बढ़ाएगा।
- मेयर पैट्रिक ब्राउन, ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy) के मेम्बर हैं। यह जलवायु संबंधी बदलाव के विरुद्ध लड़ने का नेतृत्व करने वाले, 9,200 से अधिक शहरों का सबसे पहला, हितकारी ग्लोबल गठबंधन है।

पील क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप के बारे में

पील क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट्स पर और फंडिंग सुरक्षित रखने के लिए इकट्ठे काम करती है। इससे प्रत्येक मेम्बर संगठन को, ग्रीनहाउस गैस निकासियों को कम करने और जलवायु संबंधी बदलाव को ग्रहण करने में मदद मिलेगी।

पार्टनरशिप में शामिल हैं:

- रीजन ऑफ पील (Region of Peel)
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन (City of Brampton)
- टाउन ऑफ कैलडन (Town of Caledon)
- क्रेडिट वैली कन्जर्वेशन (Credit Valley Conservation)
- सिटी ऑफ मिसिसागा (City of Mississauga)
- टोरोंटो एंड रीजन कन्जर्वेशन अथॉरिटी (Toronto and Region Conservation Authority)

हवाले

“ग्लोबल कोवनेंट ऑफ मेयर्स फॉर क्लाइमेट एंड एनर्जी के मेम्बर के तौर पर, मैं बेहद उत्साहित हूँ कि सिटी को, ब्रैम्पटन में 12 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए फंडिंग मिल रही है। ब्रैम्पटन एक ग्रीन सिटी है और लोकल तौर पर, अधिक स्थिर ट्रांसपोर्टेशन विकल्प उपलब्ध होने से, हम इकट्ठे, 2050 तक जी.एच.जी. को 80 प्रतिशत तक कम करने के हमारे शानदार लक्ष्य के प्रति काम को जारी रख सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“चूंकि म्युनिसिपल्टीज, कैनेडा की आधी जी.एच.जी. निकासियों को प्रभावित करती हैं, इसलिए हमारे लिए यहां शहर में, हमारे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीके ढूंढना जारी रखना ज़रूरी है। ये नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, हमारे समुदाय के लिए स्थिर बनने को और भी आसान बना देंगे, क्योंकि हम सभी, तेज़ी से ग्रीन सिटी बनाना जारी रखने के लिए अपनी-अपनी भूमिका निभा रहे हैं।”

- *शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज*

“पील क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप के साथ, सिटी के काम का अर्थ है कि हम, भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक ग्रीन समुदाय और स्वस्थ वातावरण पैदा करने के लिए, क्षेत्र के साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक वाहन, ब्रैम्पटन के निवासियों के लिए, वातावरण अनुकूलित फैसले लेने में अधिक आसान विकल्प हैं।”

- *रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज*

“अलग-अलग म्युनिसिपल पार्किंग लॉट्स और पूरे ब्रैम्पटन में सिटी की फैसिलिटीज में उपलब्ध, 53 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के अलावा, 12 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, हमारे समुदाय के अंदर स्थिर ट्रांसपोर्टेशन को, बढ़ा हुआ सुलभ विकल्प बनाएंगे। स्टाफ, ग्रीन सिटी बनने की, ब्रैम्पटन की प्राथमिकता को सहयोग करने के लिए, हमारे साझेदारों और निवासियों के साथ काम जारी रखने के लिए समर्पित है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca